

CLASS - 6
SUBJECT - 2nd LANGUAGE HINDI
CHAPTER - 2

भाग्य के भरोसे

सार -

- मनुष्य को भाग्य के भरोसे ना रहकर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए।
- जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते समस्या का समाधान नहीं करते, उन्हें दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस सच्चाई को आज हम प्रस्तुत कहानी 'भाग्य के भरोसे' के माध्यम से समझेंगे।
- किसी नदी में बहुत - सी छोटी मछलियों के साथ तीन बड़ी मछलियां हीरा, पारो और सुनिधि रहती थीं।
- एक दिन शाम के समय नदी में मछलियों की अधिक संख्या देख कुछ मछुआरों ने उन्हें पकड़ने की सोची।
- मछुआरों की बातें सुन भयभीत मछलियों ने इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा आयोजित की।
- सभा में हीरा मछली ने यह विचार प्रस्तुत किया कि उन्हें मुसीबत आने से पहले ही अपने परिवार के साथ इस नदी से दूसरी जगह चले जाना चाहिए।
- पारो मछली के विचार थे कि संसार में सबसे अधिक प्रबल भाग्य है। भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कहीं दूसरी जगह जाने से प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती।
- सुनिधि मछली के विचार थे कि हमें मछुआरों की बातें सुनकर यहां से नहीं जाना चाहिए बल्कि परिस्थिति का सामना डट कर करना चाहिए।
- अगले दिन मछुआरों द्वारा बिछाए गए जाल में अन्य मछलियों के साथ पारो मछली भी फंस गई। पारो मछली ने सोचा जाल में फंस जाना ही उसका भाग्य है। उसने दुख प्रकट करते हुए कहा कि वह भाग्य के भरोसे रही पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया।
- मछुआरों को जाल बिछाते देख सुनिधि मछली ने सोचा कि अब परीक्षा की घड़ी नजदीक है। उसने तुरंत समस्या का समाधान निकाला और गहरे जल में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार वह जाल में फंसने से बच गई।
- इस प्रकार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग भाग्य के भरोसे रह कर परिश्रम नहीं करते, उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति विपत्ति या मुसीबत आने से पहले ही उसका निदान कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होते हैं।

1) निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें -

- a) भाग्य
- b) उत्साह

- c) प्रविष्ट
- d) अन्यत्र
- e) प्रबल
- f) निराकरण

2) निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं -

- a) संसार
- b) परिस्थिति
- c) समाधान
- d) परिश्रम
- e) उत्साह
- f) भयभीत

3) निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा -

- a) संसार में सबसे अधिक प्रबल भाग्य होता है।
- b) कल हम इसी घाट पर मछलियां पकड़ने आएंगे।
- c) हाय! मैं भाग्य के भरोसे रही, परंतु भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया।

4) खाली स्थान भरें -

- a) तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से..... कर रहती थीं।
- b) अन्य मछुआरों को भी यहपसंद आया।
- c) हमें आज ही अपने परिवार के साथ इस नदी से..... चले जाना चाहिए।
- d) उसने तुरंत ही समस्या का..... खोज निकाला।
- e) उसने सोचा जाल में फंस जाना ही उसके..... में लिखा है।
- f) ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी से समस्या का.....करते हैं।

Exercises from the back of the lesson -

Page no. - 17,18

Q) मौखिक

Q) लिखित - Q1- लघु उत्तरीय प्रश्न

Q2- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

(Do all the questions in your exercise copy)

**Q) लिखित - Q3 - दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाएं।
(Do it in your textbook)**

Page no. - 19,20

व्याकरण से -

Q) 1,2,4 (Do it in your textbook)